

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

यू0पी0-112 सिद्धार्थनगर के पीआरवी-1523 (चार पहिया) थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के पीआरवी कर्मियों द्वारा मारपीट की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुँचकर मामले को शान्त कराते हुये विपक्षी को थाना भवानीगंज के सुपुर्द किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य, व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रसंशा की गयी।

दिनांक 23.05.2021 को समय 07.00 बजे कालर ने बताया कि ग्राम भानपुर मस्जिदिया थाना भवानीगंज में राजमन, सचिन और कई लोगों ने भाई को मारा है। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर देखा कि दोनों पक्षों में मार-पीट हुआ है, पीआरवी कर्मियों द्वारा बहुत ही सूझ-बूझ के साथ मामले को मौके पर शान्त कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु विपक्षी को थाना भवानीगंज पर लाकर सुपुर्द किया गया। घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य, व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रसंशा की गयी।

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी गण-

कमाण्डर:- भरत प्रसाद

सबकमाण्डर:- अरुणेन्द्र प्रताप सिंह

पीआरवी पायलट:- राम केवल

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

आज दिनांक 24.05.2021 को समय करीब 12:00 बजे डा0 सूर्यभान गुप्ता, जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर व उनके कार्यालय में नियुक्त श्याम करन मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिद्धार्थनगर में आकर कोविड-19 संक्रमण से बचाव से संबंधित(इम्यूनिटी बूस्टर) होमियोपैथ की 2600 शीशी (डिब्बी) दवा, आर्सेनिक अल्वा-30 श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि उक्त शीशी/डिब्बी में से प्रत्येक पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को 2-2 गोली 03 दिन तक लगातार एक बार खानी है। प्रत्येक शीशी/डिब्बी में 07 व्यक्तियों की दवा उपलब्ध है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।

इस सम्बन्ध में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/प्रतिसार निरीक्षक/समस्त शाखा प्रभारी को निर्देशित किया गया कि आप लोगों को उपलब्ध करायी जा रही होमियोपैथिक दवा (पेशी/थाना/शाखा में उपलब्ध अधिकारी/कर्मचारीगण के संख्यानुसार) को अपने - अपने अधीनस्थ नियुक्त सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को एक-एक शीशी/डिब्बी उपलब्ध कराते हुए दवा के सेवन की विधि को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त दवा का सेवन प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को करना है।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्माटा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 24-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 365 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 97 वाहनों का चालान कर ₹ 1,22,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा दिनांक 23-05-2021 को समय 22:00 बजे Google Meet के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर माफियाओं, अराजक तत्वों, संगठित अपराधियों, समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा कराये गये अवैध निर्माण आदि के ध्वस्तीकरण, सफेदपोश अपराधियों, जनपदीय व गैर जनपदीय पेशेवर हत्यारे / लुटेरे अपराधियों, आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव की तैयारियों आदि के सम्बन्ध में निर्देश देते हुये कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देशित निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा किया गया-

- 1- लंबित विवेचना की समीक्षा
- 2- अनावरण हेतु अभियोगो की समीक्षा
- 3- वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी की समीक्षा
- 4- दिनांक 01-05-2020 से अब तक मारपीट के पंजीकृत अभियोगो मे पूर्व से एवं बाद मे की गई निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा
- 5- आगामी निर्वाचन के संबंध मे की गई तैयारी की समीक्षा
- 6- विगत 10 वर्षों मे पंजीकृत अभियोगो हत्या, लूट के अभियोगो मे संलिप्त अभियुक्तो का सत्यापन एवं तैयार किये गये डोजियर की समीक्षा
- 7- बीट पुलिसिंग की समीक्षा
- 8- लंबित आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों की समीक्षा
- 9- गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की समीक्षा
- 10- 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मे संपत्ति जप्तीकरण की समीक्षा
- 11- 14(1) गैंगेस्टर एक्ट मे संपत्ति ध्वस्तीकरण की समीक्षा।
- 12- सफेदपोश माफियाओं का चिंहिकरण एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई की समीक्षा।
- 13- सी-प्लान एप की समीक्षा।

उक्त विडियों कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, निरीक्षक प्रज्ञानशाखा, निरीक्षक रेडियो शाखा, समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष, आशुलिपिक पुलिस अधीक्षक, प्रभारी डीसीआरबी शाखा, रीडर व पी0आर0ओ0 पुलिस अधीक्षक जुड़े रहें।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 06 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री रमेश चंद्र पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी इटवा एवं श्री अनिल कुमार पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2021 को जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद में संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति-व्यवस्था कायम रखने के लिए 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

थाना मोहाना पुलिस द्वारा 70 शीशी अवैध नेपाली शराब के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर एवं श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में श्री जयप्रकाश दूबे, थानाध्यक्ष थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2021 को अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध शराब व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु के अन्तर्गत थाना मोहाना पुलिस द्वारा कुल 02 अभियुक्तों को नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु0अ0सं0 105/2021 धारा 63 आबकारी अधि0 2. मु0अ0सं0 106/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के पास से कुल 70 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद हुआ। उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. त्रिभुवन उर्फ टापूल पुत्र तासे सा0 अमहवा बस्तिया थाना मोहाना जनपद सि0नगर
2. रामू गुप्ता पुत्र सुग्रीव गुप्ता सा0 दुल्हा शुमाली टोला फसादीपुर थाना मोहाना जनपद सि0नगर

बरामदगी का विवरण:-

1. त्रिभुवन उर्फ टापूल के पास से कुल 40 शीशी नेपाली शराब बरामद।
2. रामू गुप्ता के पास से कुल 30 शीशी नेपाली शराब बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सतीश कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. उ0नि0 शिवनारायण सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 राजेश यादव थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
4. का0 विकास सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
5. का0 शत्रुघ्न मद्धेशिया थाना मोहाना जनपद सि0नगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक: 24.05.2021

“शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 06 अभियुक्त गिरफ्तार”

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व श्री छत्रपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में आज दिनांक 24.05.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 06 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया ।

